

सम्बन्धित अधिका महीदय, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिनगा
-श्राकती।

प्राधान्या-पत्र वास्तु वास्तु रिक्तायत जन्मद-
न्यायाधीश, श्राकती द्वारा न्यायिक प्रणाली
में कमी, व व्यावहारिक के सम्बन्ध में।
=====

श्रीमान जी,

निवेदन है कि हम अधिवक्तागण जन्मद न्यायाधीश महीदय
श्राकती के न्यायिक प्रक्रिया व कक्षाएं से अत्यन्त दुःखी हैं। चूंकि जन्मद-
न्यायाधीश द्वारा न्यायालय पर मुकदमों की सुनवाई का कोई समय निर्धारित
नहीं है तथा जन्मद-न्यायाधीश द्वारा देर रात तक न्यायिक कार्य में व्यस्त

होने के कारण अन्य मुकदमों में व सिविल वादों में अगुओं में वादकारों व
अधिवक्ता को परेशान करने की दृष्टिकोण से रात तक लम्बित अस्था
में रखा जाता है। तथा न्यायिक इन्तजार के बावजूद अनंतोगत्वा तारीख दी
जाती है। उपरोक्त कृत्य से हम अधिवक्तागण दुःखी हैं। तथा आप से अपेक्षा
करते हैं कि आप उपरोक्त विन्दु पर विचार करके जन्मद न्यायाधीश से मिल
कर कार्य व्यवहार व न्यायिक प्रक्रिया में सुधार को अपेक्षा करेंगे।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्राधान्या-पत्र पर सम्यक विचारों-
परान्त न्यायहित वादकारों व अधिवक्ताहित में कार्यवाही करने की कृपा करें।

मेमोरेण्डम
2019-2020
अधिवक्तागण
श्राकती
22.11.19

13. Swale Prasad
14. V. Pandey Ad
15. R. P. Pathak Ad
16. Akhmerel
17. Subhas Chandra
18. Jagu. M
19. Anu. M
20. Mohan Lal Ad

- अधिवक्तागण
1. श्री जे. अशोक मिश्र एड
(2) अशोक सिंह एड
(3) S. N. Verma Advocate
(4) राम लाल एड
(5) D. K. Gader Ad
(6) Anu
(7) Anoop Kumar Pathak
(8) D. R. Sharma
(9) Anu
(10) Anu
(11) Anu
(12) Anu

कॉपी लिपिक
23.11.2019
समय 3:00 बजे कार्य समाप्त की
संलग्नक प्रमाणित
22/11/19

- 21 ~~_____~~
- 22 ~~_____~~
- 23 ~~_____~~
- 24 R. C. Sanyal
- 25 S. K. Sanyal
- 26 R. S. Choudhary
- 27 Arvind Kumar Pandey
- 28 ~~_____~~
- 29 Shankar Datta MISRA
- 30 ~~_____~~
- 31 ~~_____~~
- 32 ~~_____~~
- 33 ~~_____~~
- 34 ~~_____~~
- 35 PLAKA

- 36 ~~_____~~
- 37 ~~_____~~
- 38 ~~_____~~
- 39 ~~_____~~
- 40 ~~_____~~
- 41 P. Pandey
- 42 ~~_____~~
- 43 ~~_____~~
- 44 ~~_____~~
- 45 ~~_____~~
- 46 ~~_____~~
- 47 S. K. Sanyal
- 48 ~~_____~~
- 49 ~~_____~~
- 50 ~~_____~~
- 51 Subhan
- 52 M. S. Chandra

- 53 ~~_____~~
- 54 ~~_____~~
- 55 ~~_____~~
- 56 ~~_____~~
- 57 - सुरेश कुमार मिश्रा
- 58 ~~_____~~
- 59 ~~_____~~
- 60 ~~_____~~
- 61 ~~_____~~
- 62 ~~_____~~
- 63 ~~_____~~
- 64 ~~_____~~
- 65 ~~_____~~
- 66 ~~_____~~
- 67 - अनिल कुमार मिश्रा
- 68 ~~_____~~
- 69 ~~_____~~



माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती

मुख्यालय-मिनागा

2/2

पंजीयन संख्या : 43-2006-2007

महानगरी

अध्यक्ष कुमार 'एम्बोकेट'

नो : 9454307045

अध्यक्ष

विजय कुमार शुक्ला 'एम्बोकेट'

नो : 9415571850

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

वीरेंद्र कुमार शर्मा 'एम्बोकेट'

नो : 9721020069

संयुक्त नगरी

प्रशासन

आशुतोष मिश्र 'एम्बोकेट'

नो : 8787010661

प्रकारण

ओम नारायण मिश्र 'एम्बोकेट'

नो : 9450749434

पुराणालय

समीर कुमार मिश्रा 'एम्बोकेट'

नो : 8052311254

नव्य उपाध्यक्ष

राजीव चण्डन 'एम्बोकेट'

नो : 9415192325

कमल प्रसाद त्रिपाठी 'एम्बोकेट'

नो : 6394419717

कनिष्ठ उपाध्यक्ष

अशोक त्रिपाठी 'एम्बोकेट'

नो : 9670334376

कानेश्वरनाथ वर्मा 'एम्बोकेट'

नो : 9198607897

कोषाध्यक्ष

रवि शंकर पाठक 'एम्बोकेट'

नो : 9005187096

वरिष्ठ सदस्य

अरुण अहमद 'एम्बोकेट'

नो : 9415491361

धर्मराज पाठक 'एम्बोकेट'

नो : 9161413375

माखन लाल मिश्रा 'एम्बोकेट'

नो : 9410747649

सदास्य 'एम्बोकेट'

नो : 9369127530

विजय कुमार पाण्डेय 'एम्बोकेट'

नो : 9961834001

नो असलम 'एम्बोकेट'

नो : 9415491386

कनिष्ठ सदस्य

अजय कुमार मिश्र 'एम्बोकेट'

नो : 9452480087

गणेश जी वर्मा 'एम्बोकेट'

नो : 8175851386

विकास कुमार पाठक 'एम्बोकेट'

नो : 9721586344

अशोक कुमार शुक्ला 'एम्बोकेट'

नो : 9918947732

नो आसिफ 'एम्बोकेट'

नो : 9648762119

नो अशरफ 'एम्बोकेट'

नो : 9450927575

पदेन सदस्य

पुष्पी लाल यादव 'एम्बोकेट'

नो : 7800993041

कीशलेन्द्र कुमार त्रिपाठी 'एम्बोकेट'

नो : 9450400608

पत्रांक... १११...

दिनांक... ११.१२.२०१९

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती ।

महोदय,

अभिप्रेता संघ के 69 सदस्यों द्वारा एक अधिवक्ता श्रावस्ती पत्र द्वारा भाष्य का अस्तित्व किया गया है कि श्रीमान जी द्वारा की जा रही न्यायिक अधिकार व कक्षाधार से अधिवक्ता गण संरूप है श्रीमान जी द्वारा न्यायालय पर विविध भयवा कोषाध्यक्ष नदी की सुनवाई का कोई समय निर्दिष्ट नहीं है तथा वेध बांधवाल तक फौजदारी वारी की सुनवाई में व्यस्त रहते हैं जिससे भय विविध अपील व रिटोंजन की सुनवाई समय से नहीं हो पा रही है और अतः नै न्यायिक व अधिवक्ता विचारधीन वारी की सुनवाई न होने से निराम्य होकर घर वापस चले जाते हैं।

श्रीमान जी जनपद श्रावस्ती एक पिछड़ा जिला है यातायात का कोई सहूलियत वाहन नहीं है अभी-2 वादकरी व अधिवक्ता की सुनधान अंगण के रास्ते से जाना पड़ता है जिससे जानमाल का भी खतरा बना रहता है।

श्रीमान जी द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा विचारधीन मुद्दों तथा अनारत की सुनवाई की जाती है उनमें अनारत श्रावस्ती पत्र का निश्चिंत सुखे व ठीकरे दिन होता है नदी की सुनवाई का ही जाती है उनमें समय से आदेश कबि समय तक नहीं हो पाते हैं इस प्रकार वे संघ के अधिवक्तागण को बाध की सुनवाई करने में काफी श्रम-शानी का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त विवरण का प्रथमपत्र सामान्य वमा श्रावस्ती के लदन द्वारा निर्णय किया गया कि उपरोक्त समस्याओं के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलकर उक्त प्रस्ताव के अस्तित्व में ये पत्र आपकी प्रकृत विद्या जा रहा है।

संघ आपसे अपेक्षा करता है कि अधिवक्ताओं की उपरोक्त समस्याओं पर तत्परता से प्रतिक्रिया के लिए समझा का समाधान करने का कष्ट करें।

संघ आपका आभारी रहेगा
अधीनस्थ
अध्यक्ष/महानगरी
मा-६-का-ए.ए.स.स.स.

